



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 अप्रैल, 2025

बैशाख 2, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या 31/2025/994/तीस-3-2025

लखनऊ, 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-33

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (पंचम संशोधन)
नियमावली, 2025

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

नियम-4 का
प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

सेवा की सदस्य संख्या

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी:

पद का नाम	पदों की संख्या
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	124

परन्तु यह कि,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

टिप्पणी:- सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) का पद शासनादेश संख्या-1035/तीस- 3-11-11जीई/11, दिनांक 03 मई, 2011 के द्वारा सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद में संविलीन कर दिया गया है।

नियम-5 का
प्रतिस्थापन

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

भर्ती का स्रोत

5-सेवा में सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी:

पद का नाम	पदों की संख्या
मोटर यान निरीक्षक	124

परन्तु यह कि,

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-सेवा में मोटर यान निरीक्षक के पद पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर नियम 8 का स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

शैक्षिक अर्हता

8-सेवा में सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :-

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और

(2) (एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या

(दो) मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में राज्य प्राविधिक परिषद द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा या

(तीन) उपर्युक्त विधा/शाखाओं में से किसी में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित कोई अर्हता, और

(3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त हल्की मोटरगाड़ियों, भारी माल गाड़ियों और भारी यात्री मोटरगाड़ियों दोनों का मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव और

(4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल गाड़ियों और भारी यात्री मोटरगाड़ियों चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो।

(5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिये।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

8-सेवा में मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :-

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया और

(2) (एक) आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा, या

(दो) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इन्जीनियरिंग (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा या

(तीन) उपर्युक्त में से किसी भी शाखा में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई समकक्ष अर्हता, और

(3) किसी प्रख्यात आटोमोबाइल कर्मशाला में, जो पेट्रोल और डीजल इंजन से युक्त हल्की मोटरगाड़ियों, भारी माल गाड़ियों और भारी यात्री मोटरगाड़ियों दोनों का मरम्मत कार्य करता हो, कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव और

(4) ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना आवश्यक है जो उसे मोटर साइकिल, भारी माल गाड़ियों और भारी यात्री मोटरगाड़ियों चलाने हेतु प्राधिकृत करता हो।

(5) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिये।

नियम 18 का
प्रतिस्थापन

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नियुक्ति

18-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्तियां करेगा:

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो 31 अक्टूबर, 1998 को या इसके पूर्व संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात था और उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1999 के प्रारम्भ के दिनांक को उक्त पद पर कार्यरत हो और पद के लिए नियम 8 में विहित अर्हताएँ रखता हो, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से सीधी भर्ती के कोटा में उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा।

नियम 22 का
प्रतिस्थापन

उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-22 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

वेतनमान

22-(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

(2) उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत् दिये गये हैं:-

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

18-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्ति करेगा:

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

22-(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत् दिये गये हैं:-

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन बैण्ड (रु०)	तत्सदृश ग्रेड-वेतन (रु०)
सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	वेतन बैण्ड-2	9300- 34800	4600 / -

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

पद का नाम	वेतनमान	
	वेतन में मैट्रिक्स लेवल	वेतनमान (रु०)
मोटरयान निरीक्षक	लेवल-7	44900- 1,42,400

आज्ञा से,
एल० वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 31/2025/994/XXX-3-2025 dated April 22, 2025:

No. 31/2025/994/XXX-3-2025

Dated Lucknow, April 22, 2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service Rules 1980 :

**THE UTTAR PRADESH TRANSPORT (SUBORDINATE) TECHNICAL
SERVICE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2025**

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service (Fifth Amendment) Rules, 2025. Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

In the Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service Rules, 1980 hereinafter referred as the said rules, for existing rule-4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely:- Substitution of Rule 4

COLUMN-1

Existing Rule

Strength of the service

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

COLUMN-1*Existing Rule*

(2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below :

Name of post	Number of posts
Regional Inspector (Technical)	124

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant thereby post, without entitling any person to compensation, or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Note - The post of Assistant Regional Inspector (Technical) has been merged in the post of Regional Inspector (Technical) vide Government Order No. 1035/Thirty-3-11-11GE/11, Dated May 03, 2011.

Substitution of Rule 5

In the said rules, for existing rule-5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1*Existing Rule***Source of Recruitment**

5. Recruitment to the post of Regional Inspector (Technical) in the service shall be made by direct recruitment through the Commission.

In the said rules, for existing rule-8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely:-

Substitution of Rule 8

COLUMN-1*Existing Rule***Academic Qualification**

8. A candidate for direct recruitment to the post of Regional Inspector (Technical) in the service must possess the following qualifications:

(1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or examination recognized by the Government as equivalent thereto; and

(2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course) or

COLUMN-2*Rule as hereby substituted*

(2) The strength of the service until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below :

Name of post	Number of posts
Motor Vehicle Inspector	124

Provided that: -

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation ; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

COLUMN-2*Rule as hereby substituted*

5. Recruitment to the post of Motor Vehicle Inspector in the service shall be made by direct recruitment through the Commission.

COLUMN-2*Rule as hereby substituted*

8. A candidate for direct recruitment to the post of Motor Vehicle Inspector in the service must possess the following qualifications:

(1) Must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or examination recognized by the Government as equivalent thereto; and

(2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course) or

COLUMN-1*Existing Rule*

(ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course) or

(iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government or State Government; and

(3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; and

(4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles.

(5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari script.

COLUMN-2*Rule as hereby substituted*

(ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course) or

(iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government or State Government; and

(3) Working experience of at least one year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of both light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; and

(4) Must hold a driving license authorizing him to drive motor cycle, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles.

(5) Must have thorough knowledge of Hindi language written in Devanagari script.

In the said rules, for existing rule-18 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Substitution of
Rule 18

COLUMN-1*Existing Rule***Appointment**

18. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names candidates in of the order in which they stand in the list prepared under rules 15:

Provided that person who was posted on the post of Regional Inspector (Technical) deputation on or before October 31, 1998 and is working on the said post in the service on the date of commencement of the Uttar Pradesh Transport (subordinate) Technical Service(Third Amendment) Rules, possesses 1999 qualifications and the prescribed for the post In rule 8, shall be deemed to have been substantively appointed on the said post from the date of such commencement in the quota for direct recruitment.

COLUMN-2*Rule as hereby substituted*

18. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules 15:

COLUMN-1*Existing Rule*

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

Substitution
of Rule 22

In the said rules, for existing rule-22 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1*Existing Rule***Scales of pay**

22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of The Uttar Pradesh Transport (Subordinate) Technical Service (Fourth Amendment) Rules, 2014 is given as follows:

Name of post	Scale of Pay		
	Name of Pay band	Corresp- -onding Pay band (Rs.)	Corresp- -onding Grade pay (Rs.)
Regional Inspector (Technical)	Pay Band- 2	9300-34800	4600/-

COLUMN-2*Rule as hereby substituted*

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

COLUMN-2*Rule as hereby substituted*

22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is given as follows:

Name of post	Scale of Pay	
	Pay matrix level	Pay Scale (Rs.)
Motor Vehicle Inspector	Level 7	44900-1,42,400

By order,

L. VENKATESHWAR LU,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 39 राजपत्र-2025-(116)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 4 सा0 परिवहन-2025-(117)-100 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।